

प्रेस नोटथाना-मेहनगर

थाना बरदह व मेहनगर पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में 25 हजार रुपये का इनामिया शातिर लूटेरा पुलिस की गोली लगने से घायल, चोरी की मोटरसाइकिल, पिस्टल व कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह

द्वारा अपराध नियंत्रण एवं

वांछित, इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध असलहों की तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 08.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक बरदह श्री विनोद कुमार को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि जो मोटरसाइकिल कोदहरा में स्कूल से चोरी हो गई थी एक व्यक्ति उसे लेकर जाते हुए देखा गया है। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बरदह मय हमराह द्वारा उक्त व्यक्ति का पीछा भीरा से लालगंज होते हुए पल्हना रोड पर कर रहे थे कि वह मेहनगर की ओर मुड़ गया जिसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक बरदह द्वारा जरिए दुरभाष प्रभारी निरीक्षक मेहनगर को बताया गया इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मेहनगर द्वारा अपने हमराहियों को उक्त सूचना से अवगत कराकर मय हमराह के करौती पुलिया के पास पहुंचकर घेराबन्दी कर बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश पीछे मुड़कर भागने का प्रयास किया। पीछे मुड़कर भागने की कोशिश में बदमाश मोटरसाइकिल सहित गिर गया। पुलिस से घिरता देख उठकर अपने पास लिये असलहे से पुलिस पार्टी को लक्ष्य बनाकर जान मारने की नियत से लगातार फायर करने लगा जिसकी गोली लगने से का० संदीप शर्मा घायत हो गये। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ नियंत्रित जबाबी फायरिंग में अभियुक्त के बाये पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया। घायल अभियुक्त को समय 3.47 बजे सुबह पुलिस हिरासत में लेकर नाम पता पुछा गया तो उसने अपना नाम विवेक कुमार उर्फ मिन्टू पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम हुसेपुर (रामजीयावनपुर) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया। मौके पर अभियुक्त के पास से एक अदद पिस्टल .32 बोर, दो अदद खोखा कारतूस व 03 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर एव एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल ग्लैमर बरामद हुआ। उक्त बरामद मोटरसाइकिल थाना बरदह में पंजीकृत मु०अ०सं०-7/21 धारा 457,380 भादवि से सम्बन्धित है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु सीएचसी मेहनगर भेजा गया। घायल अभियुक्त थाना जीयनपुर से गैग्रेस्टर एक्ट का वांछित है। इस पर जनपद अम्बेड़करनगर व आजमगढ़ में हत्या, लूट एव अन्य संगीन धाराओं में दर्जन भर मुकदमें पंजीकृत हैं। पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ द्वारा इस पर 25 हजार का इनाम भी घोषित है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-22/21 धारा 307,41,411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

विवेक कुमार उर्फ मिन्टू पुत्र जयप्रकाश निवासी ग्राम हुसेपुर (रामजीयावनपुर) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं०-22/21 धारा 307,41,411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-102/01 धारा 394 भादवि थाना अहिरौला जनपद आजमगढ ।
2. मु0अ0सं0-123/01 धारा 392,411,307 भादवि थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ ।
3. मु0अ0सं0-124/01 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ ।
4. मु0अ0सं0-132/01 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ ।
5. मु0अ0सं0-68/09 धारा 302 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ ।
6. मु0अ0सं0-401/09 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ ।
7. मु0अ0सं0-789/09 धारा 394,302 भादवि थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ ।
8. मु0अ0सं0-792/09 धारा 302,307 भादवि थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर ।
9. मु0अ0सं0-748ए/10 धारा 395,308 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ ।
10. मु0अ0सं0-141/15 धारा 110 सीआरपीसी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ ।
11. मु0अ0सं0-247/16 धारा 110 सीआरपीसी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ ।
12. मु0अ0सं0-304/20 धारा 307,147,148,149 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ।
13. मु0अ0सं0-307/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ।
14. मु0अ0सं0-396/20 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ।
15. मु0अ0सं0-7/21 धारा 457,380 भादवि थाना बरदह जनपद आजमगढ ।
16. मु0अ0सं0-22/21 धारा 307,41,411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनगर आजमगढ ।

बरामदगी

1. एक अदद पिस्टल,दो अदद जिन्दा व तीन अदद खोखा कारतूस .32 बोर ।
2. चोरी की एक अदद मोटरसाईकिल ग्लैमर चेचिस नं0- MBLJA06AMF9J17655

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक मेहनगर श्री प्रशान्त कुमार मय हमराह उ0नि0 श्री पंकज यादव, उ0नि0 श्री सुभाष तिवारी,का0 संदीप शर्मा,का0 ऋषिकेश ठाकुर,हे0का0 इन्द्रपाल यादव थाना मेहनगर जनपद आजमगढ 2. प्रभारी निरीक्षक बरदह श्री विनोद कुमार मय हमराह का0 मनोज तिवारी,का0 कृष्णचन्द्र,का0 अरविन्द पाल थाना बरदह जनपद आजमगढ ।